

कोचस, बिहार में न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर की नई ट्रैक्टर डीलरशिप का उद्घाटन

कोचस, 01 जुलाई 2019

दुनिया के अग्रणी कृषि उपकरण ब्राण्डों में एक, न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर ने हाल ही में बिहार के रोहतास जिले के कोचस में नई डीलरशिप 'रॉयल एंटरप्राइजेज' का उद्घाटन किया।

उद्घाटन एक रिबन काटने की रस्म के साथ शुरू हुआ, जब श्री सौरभ सक्सेना (न्यू हॉलैंड रीजनल सेल्स मैनेजर-बिहार) ने आधिकारिक तौर पर सुविधाओं को खोलने की घोषणा की। इस आयोजन में प्रतिष्ठित वक्ताओं में श्री दादा पहलवान, विधायक- डुमरांव, श्री नथुनी पासवान, अध्यक्ष-जिला परिषद और श्री विजय कुमार मंडल, जिला अध्यक्ष-राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे। मौके पर बड़ी संख्या में किसानों के साथ न्यूहॉलैंड के मौजूदा ग्राहक और कम्पनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

रॉयल एंटरप्राइजेज रोहतास जिले और आसपास के क्षेत्रों में न्यूहॉलैंड ग्राहकों को बिक्री और उसके बाद की सेवाएं देने के लिए डीलरशिप को खास जगह पर खोला गया है। इस नए केंद्र में सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ कार्यकुशल, पूर्ण प्रशिक्षित और उत्साह से भरपूर सेल्स एवं सर्विस टीम तैनात है, जो हर ग्राहक को आनंददायक व परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने में सक्षम हैं।

रॉयल एंटरप्राइजेज के मालिक, श्री शिवनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा, "इंडस्ट्री के वैश्विक लीडरों में से एक के साथ जुड़ना हमारे लिए गौरव की बात है। हमें बहुत खुशी है कि हम न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर के विश्वस्तरीय उत्पाद और सेवाएं इस क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाएंगे तथा ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि का ध्यान रखेंगे।"

"बिहार में रॉयल एंटरप्राइजेज का खुलना ग्राहकों के और निकट पहुंचने और उन्हें श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेल्स एवं सर्विस अनुभव देने के हमारे निरंतर प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। हमारा प्रयास देश के विभिन्न भागों में रणनीतिक महत्व के स्थानों पर मौजूद हमारे नेटवर्क की मदद से आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने का है। न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर ने ग्राहकों के लिए सेल्स और सर्विस की पेशकश में एक बेंचमार्क निर्धारित किया। बिहार हमारे लिए अहम बाजार है और हमें विश्वास है कि नई डीलरशिप की मदद से हम क्षेत्र के सभी ग्राहकों के अधिक करीब होंगे," श्री सौरभ सक्सेना ने इस अवसर पर कहा।

न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर अत्याधुनिक तकनीक के ट्रैक्टरों की बेहतरीन रेंज के साथ-साथ जमीन तैयार करने से लेकर कटाई के बाद उपयोगी मशीनें जैसे कि पुआल और चारा तैयार करने के उपकरण, प्लांटर, बेलर, स्प्रेयर और जुताई के उपकरणों की पूरी रेंज पेश करता है। अत्याधुनिक तकनीक, शक्तिशाली और अधिक इंधन-कुशल इंजन के साथ न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर देश के किसानों की पहली पसंद बन गए हैं। आज कम्पनी के नेटवर्क में 1000 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्र हैं। पूरे भारत के ग्राहकों की मदद करने के लिए कम्पनी का टोल-फ्री नंबर 1800 419 0124 है जहाँ ग्राहक हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी समेत कुल 10 भाषाओं में मदद प्राप्त कर सकते हैं।



PRESS RELEASE

-समाप्त-

न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर को ग्राहकों, नकदी फसल उत्पादकों, पशुपालक किसानों, ठेकेदारों, वाइनयार्ड (अंगूर के खेत) या जमीन की देखभाल के पेशे से जुड़े लोगों की जबरदस्त सफलता ने ऊंची पहचान दिलाई है। सभी कम्पनी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बड़ी रेंज पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यूहॉलैंड की संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला में ट्रैक्टर से लेकर कटाई की मशीनें, सामान रखरखाव की मशीनें शामिल हैं और बड़ी बात यह भी कि कम्पनी कृषि कार्य की विषयज्ञता के साथ हर किसान को जरूरत के हिसाब से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। न्यूहॉलैंड का बहुत प्रोफेशनल ग्लोबल डीलर नेटवर्क है और उत्कृष्टता को लेकर प्रतिबद्धता के साथ यह हर ग्राहक को बेजोड़ अनुभव का भरोसा देती है। न्यू हॉलैंड की अधिक जानकारी www.newholland.com पर देखें।

न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर सीएनएच इंडस्ट्रियल एन.वी. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) का एक ब्राण्ड है। यह कैपिटल गुड्स में ग्लोबल लीडर है जिसके पास औद्योगिक अनुभव, प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज और पूरी दुनिया में पहुंच है। सीएनएच इंडस्ट्रियल की अधिक जानकारी www.cnhindustrial.com पर ऑनलाइन देखें।

प्रेस संपर्क:

पुनीत जैन
न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर प्रेस रिलेशंस इंडिया
ईमेल: Puneet.jain@cnhind.com
Ph: 9205484518